

वोटिंग डे में 100 दिन शेष हैं – क्या आप तैयार हैं?

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (15 जुलाई, 2022) – रविवार, 17 जुलाई को 100 दिन शेष रह जाएंगे, जब ब्रैम्पटन के मतदाता, सोमवार 24 अक्टूबर, 2022 को म्युनिसिपल और स्कूल बोर्ड चुनाव में वोट देने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लेंगे।

वोटिंग आसान है – यहां मतदाताओं के लिए याद दिलाने वाली कुछ उपयोगी बातें दी गई हैं:

- **निर्धारित करें कि क्या आप योग्य मतदाता हैं:** आप तब वोट डालने के लिए योग्य हैं, यदि आप कनेडियन नागरिक हैं, वोटिंग डे (Voting Day) को आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है और आप ब्रैम्पटन में रहते हैं (या ब्रैम्पटन में जमीन के मालिक या किराएदार हैं या उस मालिक या किराएदार के जीवनसाथी हैं)।
- **वोटर्स सूची में अपनी जानकारी की पुष्टि करें:** यह देखने के लिए कि आपकी जानकारी सही और अप-टू-डेट है, voterlookup.ca पर जाएं। यह वेबसाइट, 21 जुलाई, 2022 तक एक्टिव रहेगी। उसके बाद, मतदाता 1 सितम्बर से शुरू करते हुए, सिटी की वेबसाइट पर अपनी जानकारी देख पाएंगे।
- **अपने वार्ड का पता लगाएं:** यदि आपको पक्का पता नहीं है कि आप कौन-से वार्ड में रहते हैं, तो [यहां देखें \(check here\)](#)।
- **अपने वार्ड में कहीं भी वोट डालें:** 24 अक्टूबर को, आप अपने वार्ड में किसी भी वोटिंग स्थान पर वोट डाल सकते हैं। वोटिंग स्थान के बारे में जानकारी, सितम्बर में सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
- **एडवांस वोटिंग तिथियां:** यदि आप 24 अक्टूबर को वोट नहीं डाल सकते, तो किसी भी एडवांस वोटिंग दिनों, 7, 8, 9, 14 या 15 अक्टूबर को वोट डालने पर विचार करें। एडवांस वोटिंग (Advance Voting) के बारे में जानकारी, सितम्बर में सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। एडवांस वोटिंग, कम्युनिटी के उन मेम्बरों के लिए एक अच्छा विकल्प भी है, जो दीवाली (Diwali) और बंदी छोड़ दिवस (Bandi Chhor Divas) का जशन मनाने में व्यस्त होंगे, जो इस वर्ष वोटिंग डे को ही है।
- **प्रॉक्सी वोटिंग:** यदि आप ब्रैम्पटन के योग्य मतदाता हैं, जो वोटिंग डे को या एडवांस वोटिंग की किसी भी तिथि को वोट नहीं डाल सकते हैं, तो आप अपनी ओर से वोट डालने के लिए, ब्रैम्पटन के किसी अन्य योग्य मतदाता को अपॉइंट कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, जिसे वोटर्स सूची में है या जिनका नाम वोटर्स सूची में शामिल किया हुआ है, वह प्रॉक्सी के द्वारा वोट डाल सकता है। प्रॉक्सी वोटिंग के बारे में अधिक जानकारी, जल्द ही सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
- **होम वोटिंग सेवा:** वे योग्य मतदाता, जो बीमारी, चोट या विकलांगता के कारण घर पर रहने के लिए मजबूर हैं, 11, 12 और 13 अक्टूबर को होम वोटिंग (Home Voting) सेवा का प्रयोग करते हुए वोट डालने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन व्यक्तियों के लिए सीमित अपॉइंटमेंट्स उपलब्ध होंगी, जो योग्यता शर्तों को पूरा करते हैं। सेवा और अपॉइंटमेंट प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी, जल्द ही सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

- **अपनी आई.डी. लेकर आएँ:** मतदाताओं के लिए आवश्यक है कि वोट डालने के लिए अपने साथ एक पहचान पत्र लेकर आएँ, जिस पर उनका नाम और योग्य ब्रैम्पटन का पता लिखा हो। वोटिंग से पहले, [पहचान के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों \(acceptable documents for identification\)](#) की सूची देखें।

अन्य रिमाइंडर:

- **चुनाव में काम करें:** अभी म्युनिसिपल चुनाव वर्कर बनने के लिए आवेदन करें और वोटिंग डे को एडमिनिस्ट्रेटिव तथा ग्राहक सेवा कार्यों में सहायता करें। 2,000 से अधिक पद उपलब्ध हैं। ब्रैम्पटन के 18 वर्ष या अधिक उम्र के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह नए कौशल प्राप्त करने, सिटी के स्टाफ को जानने और आपकी कम्युनिटी से जुड़ने का शानदार अवसर है।
- **नामांकन वाला दिन:** संभावी उम्मीदवार अपने नामांकन पेपर, शुक्रवार, 19 अगस्त, दोपहर बाद 2 बजे तक फाइल कर सकते हैं। उम्मीदवार योग्यता और नामांकन प्रक्रिया के बारे में जानकारी, [यहां \(here\)](#) उपलब्ध है।
- **तृतीय पक्ष विज्ञापन:** संभावी तृतीय पक्ष विज्ञापक, ब्रैम्पटन में विज्ञापन देने के लिए 21 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन फाइल कर सकते हैं। तृतीय पक्ष विज्ञापन, योग्यता शर्तों और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में जानकारी, [यहां \(here\)](#) उपलब्ध है।

2022 के म्युनिसिपल और स्कूल बोर्ड चुनाव के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.brampton.ca/bramptonvotes पर जाएं।

हवाला

“म्युनिसिपल सेवाएं, जैसे सड़कें, पार्क, रेक्रिएशन और ट्रांज़िट, निवासियों की रोज़ाना ज़िंदगियों की हिस्सा हैं। म्युनिसिपल और स्कूल बोर्ड चुनाव में वोट डालना, आपके शहर को बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण तरीका है और एडवांस वोटिंग दिनों, होम वोटिंग और आपके वार्ड में किसी भी स्थान पर वोट डालने की योग्यता के साथ, यह सबके लिए सुविधाजनक भी है। म्युनिसिपल और स्कूल बोर्ड चुनाव में केवल 100 दिन शेष हैं, सुनिश्चित करें कि आपने वोट डालने की योजना बना ली है।”

- पीटर फे (Peter Fay), सिटी क्लर्क एंड रिटर्निंग अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।



Media Release

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

multiculturalmedia@brampton.ca